



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2007/आश्विन 17, 1929

No. 310]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2007/ASVINA 17, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2007

सं. 66 (आर ई-2007)/2004—2009

सं. 01/94/180/डीईपीबी/पीएन/एएम 08/पीसी-I.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैराग्राफ 1.1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार “डीईपीबी दरों की अनुसूची” (समय-समय पर यथासंशोधित) में, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन/शुद्धियां आदि करते हैं :

उत्पाद समूह : इंजीनियरिंग उत्पाद

उत्पाद कोड : 61

डीईपीबी क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दर	अधिकतम मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
67क	स्टेनलैस स्टील से निर्मित ब्राइट बार्स	5	80 रु./किग्रा.
67ख	माइल्ड स्टील से निर्मित ब्राइट बार्स	3	23.50 रु./किग्रा.
67ग	स्टेनलैस स्टील और माइल्ड स्टील के अलावा मदों से निर्मित ब्राइट बार्स	4	24 रु./किग्रा.
139	गैल्वनाइज्ड नॉन अलाय स्टील रौप्स (वायर स्टील कोर)	4	
140	गैल्वनाइज्ड नॉन अलाय स्टील रौप्स (फाइबर कोर)	4	

(1)	(2)	(3)	(4)
308	एल्युमीनियम इन्गोट्स	3	.
309	एल्युमीनियम सो इन्गोट्स	3	.
313	कैल्सिनाइड एल्युमिनिया	6	.
326	फैरो क्रोम/चार्ज क्रोम	4	30.50 रु./किग्रा.
327	फैरो मैगनीज (फे मन)	4	30 रु./किग्रा.
329	कोल्ड रोल्ड गैल्वनाइज्ड नॉन अलाय स्टील स्टीस/हूप्स एंड स्ट्रीप्स/वाइड काँयल्स/सर्कल्स (प्लेन/कोरुगेटेड)	5	30.50 रु./किग्रा.
331	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड/कार्बन/एनोड/ज/ निपल्स/ग्रे फाइट फाइल एंड मिक्स ग्रेफाइट प्रोडक्स	6	.
343	नॉन अलाय स्टील इन्गोट, बिलेट्स, बिलुम्स एंड स्लेब्स	4	21 रु./किग्रा.
347	सिलिको मैगनीज (सी मन)	4	25 रु./किग्रा.
348	स्टेनलैस स्टील वायर	5	97 रु./किग्रा.
349	सी आर स्टेनलैस शीट्स/हूप्स एंड स्ट्रीप्स/वाइड काँयल्स/एनेलिक सहित/ रहित सकल्स/स्कीन पासिंग	5	86 रु./किग्रा.
350	हॉट रोल्ड नॉन अलाय स्टील प्लेट्स/वाइड काँयल्स/शीट्स/हूप्स एंड स्ट्रीप्स (स्कैल्प सहित)	5	86 रु./किग्रा.
381	एलाय स्टील (स्टेनलेस स्टील से अन्यत्र) इनगोट्स, सेमीज (ब्लूमस/वीलेट्स/स्लेब्स) बार्स और राड्स (राउण्ड्स/प्लेट्स/हेक्सागन/ओक्टागन वायर राड्स आदि) एंगल्स, शेप्स और सेक्शनस (विशेष प्रोफाइल सहित) प्लेट्स, हाट रोल्ड सीट्स/ हूप्स और स्ट्रीप्स (स्कैल्प सहित)/वाइड कवाइल्स	5	28 रु./किग्रा.
389	आयरन और पैलैट्स (हैमिटाइट ओर से)	3	2.50 रु./किग्रा.
390	स्टेनलैस स्टील ब्रास और रॉड्स (राउण्ड्स, फ्लैट्स, हेक्सागन, ओक्टागन, वायर रॉड्स, कोल्ड ड्रिस्टेड डिफार्मड बार्स, थर्म मैकेनिकल ट्रीटेड रिइन्फोर्सिंग बार्स सहित) एंगल्स, शेप्स और सेक्शनस (बीम्स, जॉइंट्स चैनल्स, विशेष प्रोफाइल्स सहित) प्लेट्स/ शीट्स/स्ट्रीप्स/वाइड काँयल्स, ब्लूमस, बिलेट्स, स्लेब्स, इन्गोट्स	5	53 रु./किग्रा.
391	पिंग आइरन/हाट मेटल	3	13 रु./किग्रा.
433	इन्डस्ट्रियल वाल्स (कास्ट या फ्रोज्ड बॉडी)	2	.
590	जिंक कान्सन्ट्रेड	3	.
598	लीड कान्सन्ट्रेड	3	.
600	जिंक इन्गोट	5	.

**उत्पाद समूह : रसायन****उत्पाद कोड : 62**

डीईपीबी क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी	अधिकतम मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
551	पालीएस्टर अंशतः ओरिएन्टेड यार्न	7	
556	पालीएस्टर स्टेपल फाइबर	8	55 रु./किग्रा.
557	पालीएस्टर टेक्सचराईज्ड/पी ओ वाई डाइड/अनडाइड फिलामेंट यार्न	6	
571	कैसीन सभी प्रकार के	9	
794	लीनियर अल्कायिल बेन्जीन	4	

**उत्पाद समूह : प्लास्टिक****उत्पाद कोड : 63**

डीईपीबी क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दर	अधिकतम मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
48	मोल्डिंग ग्रेड के लिए पालीएस्टर चिप (उच्च दाब ग्रेड)	8	46 रु./किग्रा.
78	पालीएस्टर चिप्स	8	40 रु./किग्रा.

**उत्पाद समूह : खाद्य उत्पाद****उत्पाद कोड : 67**

डीईपीबी क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दर	अधिकतम मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
10	सफेद चीनी	4	

**उत्पाद समूह : वस्त्र****उत्पाद कोड : 89**

डीईपीबी क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दर	अधिकतम मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
26	100 प्रतिशत वुलन वर्स्टेड यार्न (डाइड)	8	
27	100 प्रतिशत वुलन वर्स्टेड यार्न (ग्रे)	8	
50	पालीएस्टर/विस्कोस ब्लेन्डेड यार्न	7.7	

(1)	(2)	(3)	(4)
51	पालीएस्टर/कॉटन ब्लेन्डेड (भार के रूप में 50 प्रतिशत से कम पालीएस्टर अंश न हो)	5.7	
53	विसकस यार्न (विसकस अंश 100 प्रतिशत)	7.7	
55क	पालीएस्टर-वुलन यार्न (भार के रूप में 55 प्रतिशत से कम पालीएस्टर अंश न हो)	7.7	
55ख	पालीएस्टर-वुलन ब्लेन्डेड यार्न (भार के रूप में 25 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच पालीएस्टर अंश हो)	7.4	
56	मानव निर्मित फाइबर से कते यार्न जिसका अन्य कहीं उल्लेख नहीं है	7.7	
78	मेलेन्ज यार्न सहित कॉटन यार्न	3	

उत्पादन समूह : विधि मर्दे

उत्पाद कोड : 90

डीईपीबी क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दर	अधिकतम मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	रेलिवेंट पैकिंग मेटेरियल में पैक की गई तम्बाकू/स्वीट तम्बाकू/तम्बाकू पेस्ट	2.00	
22ग.	एग्री उत्पाद जिसमें उसके संसाधित उत्पाद हों, जो मानक निवेश उत्पादन मानदंडों के अंतर्गत हैं तथा जिनके लिए या तो कोई विशिष्ट दर विद्यमान नहीं है, या फिर विशिष्ट दर कोई है भी तो 5 प्रतिशत से कम है, जोकि 1 किलोग्राम अथवा उससे कम के उपभोक्ता पैकों में पैकड है, जिनके जेनरिक अथवा सामान्य नाम के तौर पर पैकड उत्पाद पर ब्यौरे दिए हों, सम्मिलित पदार्थों की सूची (संसाधित एग्री उत्पादों के मामले में), निबल मात्रा, पैकिंग की तारीख और "से पूर्व सर्वोत्तम" तारीख पैकेट पर प्रकाशित हो। (उन उत्पादों पर लागू नहीं होगा जिनकी डीईपीबी दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है)	2.00	
22घ.	निर्यात उत्पाद, जो मानक निवेश उत्पादन मानदंडों के अंतर्गत हैं तथा जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट डीईपीबी दर अधिसूचित नहीं है, किसी पैकेजिंग मेटेरियल में पैक किए पैक किए गए।	1.5	
25.	जूट यार्न/जूट ट्वाइन	2.00	

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th October, 2007

No. 66 (RE-2007)/2004—2009

**No. 01/94/180/DEPB/PN/AM 08/PC-I.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. I), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/additions/corrections etc. in the Schedule of DEPB Rates (as amended from time to time) with immediate effect :

**Product Group : Engineering Products****Product Code : 61**

DEPB Sl. No.	Description	DEPB Rate	Value Cap
(1)	(2)	(3)	(4)
67A	Bright bars made out of Stainless Steel	5	Rs. 80/Kg.
67B	Bright bars made out of Mild Steel	3	Rs. 23.50/Kg.
67C	Bright bars made out of items other than Stainless Steel and Mild Steel	4	Rs. 24/Kg.
139	Galvanised Non-alloy Steel Wire Ropes (wire steel core)	4	
140	Galvanised Non-alloy Steel Wire Ropes (fibre core)	4	
308	Aluminium ingots	3	
309	Aluminium sow Ingots	3	
313	Calcined Alumina	6	
326	Ferro Chrome/Charge Chrome	4	Rs. 30.50/Kg.
327	Ferro Manganese (Fe Mn)	4	Rs. 30/Kg.
329	Cold Rolled Galvanised Non-alloy Steel sheets/Hoops and Strips/wide coils/Circles (Plain/Corrugated)	5	Rs. 30.50/Kg.
331	Graphite Electrode/Carbon Electrode/Anodes/Nipples/Graphite Fine and Mix Graphite products	6	
343	Non-alloy Steel Ingot, Billets, Blooms and Slabs	4	Rs. 21/Kg.
347	Silico Manganese (Si Mn)	4	Rs. 25/Kg.
348	Stainless Steel Wires	5	Rs. 97/Kg.
349	CR Stainless Steel Sheets/Hoops & Strips/Wide Coils/Circles with/without annealing/skin passing	5	Rs. 86/Kg.
350	Hot Rolled Non-Alloy Steel Plates/Wide Coils/Sheets/Hoops & Strips (including skelp)	4	Rs. 22/Kg.
381	Alloy Steel (other than stainless steel) Ingots, Semis (Blooms/Billets/Slabs), Bars and Rods (including Rounds, Flats, Hexagon, Octagon, Wire rods etc.), Angles, Shapes and Sections (including Special Profiles), Plates, Hot Rolled Sheets/Hoops and Strips (including skelp)/ Wide Coils	5	Rs. 28/Kg.

4154 GI/07-2

(1)	(2)	(3)	(4)
389	Iron Ore Pellets, (from Haematite Ore)	3	Rs. 2.50/Kg.
390	Stainless Steel Ingots, Semis (Blooms/Billets/Slabs) Bars and Rods (including Rounds, Flats, Hexagons, Octagons, Wire rods, Cold twisted deformed bars, Thermo-Mechanically Treated Reinforcing bars) Angles, Shapes and Sections (including Beams, Joints, Channels, Special Profiles), Plates/HR Sheets/Hoops and Strips (including Skelp)/Wide Coil	5	Rs. 53/Kg.
391	Pig Iron/Hot Metal	3	Rs. 13/Kg.
433	Industrial Valves (cast or forged body)	2	
590	Zinc Concentrates	3	
598	Lead Concentrate	3	
600	Zinc Ingot	5	

**Product Group : Chemicals****Product Code : 62**

DEPB Sl. No.	Description	DEPB Rate	Value Cap
(1)	(2)	(3)	(4)
551	Polyester Partially Oriented Yarn	7	
556	Polyester Staple Fibre	8	Rs. 55/Kg.
557	Polyester Texturised/POY Dyed/Undyed Filament Yarn	6	
571	Casswin All Types	9	
794	Linear Alkyl Benzene	4	

**Product Group : Plastics****Product Code : 63**

Sl. No.	Description	DEPB Rate	Value Cap
(1)	(2)	(3)	(4)
48	Polyester Chip for Moulding Grade (High Pressure Grade)	8	Rs. 46/Kg.
78	Polyester chips	8	Rs. 40/Kg.

**Product Group : Food Products****Product Code : 67**

Sl. No.	Description	DEPB Rate	Value Cap
(1)	(2)	(3)	(4)
10	White Sugar	4	

**Product Group : Textiles****Product Code : 89**

Sl. No.	Description	DEPB Rate	Value Cap
(1)	(2)	(3)	(4)
26	100% Woollen Worsted Yarn (Dyed)	8	
27	100% Woollen Worsted Yarn (Grey)	8	
50	Polyester/Viscose blended yarn	7.7	
51	Polyester/Cotton blended yarn (polyester content not less than 50% by weight)	5.7	
53	Viscos yarn (viscos content 100%)	7.7	
55A	Polyester-Woollen yarn (Polyester content not less than 55% by weight)	7.7	
55B	Polyester-Woollen blended yarn (Polyester content between 25% and 55% by weight)	7.4	
56	Yarn spun out of man-made fibres not elsewhere specified	7.7	
78	Cotton Yarn including Melange yarn	3	

**Product Group : Miscellaneous Products****Product Code : 90**

Sl. No.	Description	DEPB Rate	Value Cap
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Tobacco/Sweet Tobacco/Tobacco Paste Packed in the relevant packing material	2	
22C	Agro products, including processed products thereof, covered under standard Input Output norms and for which either no specific rate exists or the specific rate, if any, is below 5%, packed in consumer packs of 1 Kg or less with such details as the generic or common name of the product packed, list of ingredients (in case of processed agro products), not qty., date of packing and "best before" date printed on the package, (not for products with DEPB rate >5%)	2	
22D	Export Products, covered under Standard Input Output Norms and for which no specific DEPB rates have been notified, packed in any packaging material	15	
25	Jute Yarn/Jute Twine	2	

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
& ex officio Addl. Secy.